

## वेकसीनशन पर कन्फ्यूजन?

May 2021



१ मई से १८ से ऊपर वाले लोगों के लिए वकसीनशन शुरू हो रहा है ।

जाहिर सी बात है की लोगों के मन में लसीकरण को लेके काफी सवाल है ।

लेकिन चिंता मत कीजिये , उसके जवाब हम आप को दे रहे है ।

१. वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ?

वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन आप आरोग्य सेतु app या COWIN पोर्टल पर कर सकते हैं. यहाँ आप अपने सुविधा से वैक्सीन लगवाने का दिन और समय तय कर सकते हैं ।

२. रजिस्ट्रेशन के लिए कोनसे डाक्यूमेंट्स की जरूरत होगी ?

एक पासपोर्ट साइज फोटो और १ सर्टिफाइड id प्रूफ – जैसे की पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस , वोटर id इत्यादि ।

३. क्या वैक्सीन लेते समय भी फोटो id साथ रखनी होगी ?

हाँ , जो id आपने रजिस्ट्रेशन के समय इस्तेमाल की थी उसीको साथ रखना होगा ।



४. वैक्सीन के कितने डोस होंगे और कितने दिन के अंदर लेनी होगी ?


दोनों वैक्सीन के दो डोस दिए जायेंगे | COVISHIELD के दो डोस के बिच ४-८ हफ्तों का अंतर और COWAXIN के दो डोस के बिच ४-६ हफ्तोंक अंतर होगा

५. क्या दोनों डोस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा ?

नहीं। ..एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना होगा ।

६. COVISHIELD और COWAXIN के बिच कौनसी बेहतर है ?

क्लीनिकल ट्रायल में दोनों वैक्सीन उपयुक्त पायी गई है ।



७. क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकता हूँ ?

नहीं। .ये इस पर निर्भर करता है की आप जिस सेंटर में वैक्सीन लगा रहे हो वह कौनसी उपलब्ध है ।

८ क्या कोरोना रिकवर्ड को भी वक्सीनशन की जरूरत है ?

बिलकुल। ..कोरोना के कई मामले reinfection वाले है इसीलिए आपको वैक्सीन लेनी होगी ।

९. किन लोगो को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए ?

गर्भवती महिलाये, स्तनदा महिलाये, कोरोना मरीज और किसीभी अन्य गंभीर बीमारीके मरीज को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए ।



10क्या दोनों डोस अलग अलग वैक्सीन के हो सकते हैं ?


बिलकुल नहीं ।

११. क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनना होगा ?

बिलकुल ।

१२ शरीर में एंटीबाडी बनना कब शुरू होगी ?

वैक्सीन के दोनों डोस लगने के बाद दो से तीन हफ्तों में एंटीबाडी बनना शुरू होगी ।



१३. वक्सीनशन के बाद किस तरह के लक्षण दिखते हैं ?

जिस जगह वैक्सीन दी वह हल्का दर्द , सिरदर्द , बुखार , चिड़चिड़ापन , चक्कर आना ये हो सकता है । ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले ।

१४ क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है ?

वैक्सीन १००% कोरोना से बचने की guarantee नहीं देती लेकिन आपको कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है ।





१५ वैकसीन से पीरियड्स पर कोई असर होगा क्या ?

नहीं , वैकसीन का पीरियड से कोई लेना देना नहीं है ।

१६. वैकसीन की कीमत क्या है ?

सरकारी अस्पताल में दोनों डोस मुफ्त में दिए जायेंगे । प्राइवेट अस्पताल में एक डोस के लिए २५० रुपये देने होंगे ।





**Thank you**  
**Healthy Women and**  
**Children for a**  
**Healthy Urban World**

[www.snehamumbai.org](http://www.snehamumbai.org)

